

# भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 181/1/2018(परामर्शी)

दिनांक: 22.03.2018

## परिपत्र

भारत निर्वाचन आयोग अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रभाग के लिए 24 लेवल-ख परामर्शियों को रु. 50,000/- प्रति माह के सर्वसमावेशी समेकित मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखता है। प्रदान की जाने वाली धनराशि आय कर/उप कर इत्यादि जैसी वैधानिक कटौती के अधीन होगी।

2. इच्छुक एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्त अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियां जो संसाधन प्रबंधन में अनुभव रखते हैं और दिल्ली में कार्य कर सकते हैं, इस पद के लिए वाक-इन-इन्टरव्यू हेतु आवेदन कर सकते हैं:-

- (i) भारत निर्वाचन आयोग के सचिव/अवर सचिव श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी;
  - (ii) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों के सेवानिवृत्त अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी;
  - (iii) बी ई एल और ई सी आई एल के सेवानिवृत्त अधिकारी।
  - (iv) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारी।
3. परियोजन की समयावधि 06 माह से 01 वर्ष तक के लिए होगी।
4. परियोजन की निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर यथासंशोधित आयोग के दिनांक 12.08.2011 के परिपत्र सं. 181/1/2011 के द्वारा नियंत्रित की जाएंगी।
5. वे अधिकारी जो आवेदन करने के इच्छुक हैं, अपने संक्षिप्त जीवन-वृत्त एवं सुसंगत प्रमाण-पत्रों के साथ आयोग में दिनांक 26.03.2018 को उक्त पद हेतु पहले वाक-इन-इन्टरव्यू में भाग ले सकते हैं। वाक-इन-इन्टरव्यू के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

( बी.सी. पात्र )  
सचिव

- (i) भारत निर्वाचन आयोग के सचिव/अवर सचिव श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी।
- (ii) सेवानिवृत्त अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को व्यापक प्रचार के लिए सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को परिचालित।
- (iii) महानिदेशक, बी ई एल, आउटर रिंग रोड, नगवारा, बंगलौर-560045 को व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए।
- (iv) महानिदेशक, ई सी आई एल, पो. ई सी आई एल, हैदराबाद-560062 को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- (v) सचिव, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार भवन, नई दिल्ली-110001 को प्रचार-प्रसार हेतु।